

SHRI RAM FINANCE CORPORATION PRIVATE LIMITED

CHARGES & INTEREST SCHEDULE (FY 2026-27)

S. No.	Income / Charge Head	Products	Final Amount / Basis
1	Processing Fees*	SME Loan	If Loan Amount is Less than 3 Lacs - upto 5.00% of Loan Amount (Plus GST) If Loan Amount is More than 3 Lacs - upto 4.00% of Loan Amount (Plus GST) Break-up of above Processing Fee: Loan Amount upto ₹3 Lacs: Process Charge – upto 1.50%; Inspection & Verification Charge – upto 1.75%; Search & Valuation Charge – upto 1.75% (Plus GST) Loan Amount above ₹3 Lacs: Process Charge – upto 1.50%; Inspection & Verification Charge – upto 1.25%; Search & Valuation Charge – upto 1.25% (Plus GST)
		Personal Loan	upto 3.50% of Loan Amount (Plus GST) Break-up of above Processing Fee: Process Charge – upto 2.00% + GST; Home Inspection & Verification Charge – upto 1.50% + GST
		Four Wheeler	upto 4.00% of Loan Amount (Plus GST)
2	Broken Period Interest / Moratorium Interest	All products	As per calculation*
3	Hypothecation Charges	SWC	₹1500-₹3500
		Four Wheeler	At actual
4	RTO Expenses	Auto Loan	upto ₹ 7000
		SWC Loan	3.5% of Loan Amount
5	Valuation Charges	Four Wheeler	At actuals
6	Mandate charges	All Loan Products	upto INR 750 + GST + bank charges at actuals.
7	Credit Verification charges	All Loan Products	Rs. 100 per instance Plus GST
8	CIBIL / CIR Charges	All Loan Products	₹50 – ₹200 + GST
9	Risk Review Charges	All Loan Products	INR 1,000 per instance Plus GST

10	CERSAI Registration Charges	SME	At Actuals
11	Overdue Charges for delay in payment	SME Loan, Personal Loan	Penal Charges: upto 4% per month on the overdue amount, for delay in payment of EMI/Dues {This includes the interest amount accrued on the overdue amounts at the contracted rate of interest (IRR)}
		SWC Loan, Auto Loan, Four Wheeler Loan	Penal Charges: upto 6% per month on the overdue amount, for delay in payment of EMI/Dues {This includes the interest amount accrued on the overdue amounts at the contracted rate of interest (IRR)}
12	Stamping & Inspection expenses	Auto Loan	upto Rs. 1200 (deducted from disbursement) (for all loans of specified dealers only)
		SWC Loan	Rs. 600 Fixed
		SME Loan, Personal Loan	3% -4 % of Loan Amount
		Four Wheeler	upto 4 % of Loan Amount
13	Bounce Charges (Cheque & NACH)	Auto Loan, SWC Loan,	upto Rs. 400 + GST per bounce.
		Four Wheeler, SME Loan, Personal Loan	upto Rs. 500 + GST per bounce.
14	Recovery Charges	Auto Loan, SWC Loan, SME Loan, Personal Loan	upto Rs. 1000 + GST per instance of visit to customer premises, whether any instalment/EMI repayment amount is paid or not.
		Four wheeler	upto Rs. 700 + GST per instance of visit to customer premises, whether any instalment/EMI repayment amount is paid or not.
15	Seize Charges	Auto Loan, SWC Loan, SME Loan	upto Rs. 2000 + GST per instance
		Four wheeler	upto Rs. 7000 + GST per instance
16	Telephone Charges	All Loan Products	Rs.50 Plus GST per month
17	Legal Notice Charges	All Loan Products	upto Rs. 2000 Plus GST per notice
18	Postal Charges	All Loan Products	At actuals
19	Statement of Accounts Issuance	All Loan Products	Rs. 300 per instance + GST
20	NOC request (Active Loan)	All Loan Products	Rs. 300 per request + GST NOC for usage conversion : Rs. 2,000 per request + GST.
21	NOC Issuance Charges for closed loan	All Loan Products	First copy: Nil; Duplicate copy: INR 300 per loan / per request + GST
22	Restructuring Charges	All Loan Products	Upto 2000 + GST per instance
23	Swap Charges (Cange in Repayment mode/ Bank Account)	All Loan Products	INR 300 per instance + GST
24	Legal Charges	All Loan Products	At actuals

25	Cash Handling Charges	All Loan Products	Upto 1% of cash amount, subject to minimum INR 100 + GST, per instance.
26	Cash Collection charges	All Loan Products	upto Rs. 100 per instance (For NACH customers)
27	Loan Cancellation charges	All Loan Products	Upto 07 days- NIL on refund of entire sanctioned amount after 07 days - Interest + Prepayment charges + Processing Fees
28	Vehicle Maintenance Charges	Auto Loan, SWC Loan, Four Wheeler	At Actuals for seized vehicles
29	Loan Takeover Charges	All Loan Products	₹500+ GST
30	Due Date Change Charges	All Loan Products	₹500 – ₹1,000+ GST per instance
31	Yard Rental Charges	Auto Loan, SWC Loan, Four Wheeler Loan	At Actuals
32	Invoice Non-submission Charges	Auto Loan, SWC Loan, Four Wheeler Loan	₹300/month + GST
33	RC Hypothecation Pending Charges	Auto Loan, SWC Loan, Four Wheeler Loan	₹300/month + GST
34	Property Collateral Document Delay Charges	SME Loan	₹5,000 + GST
35	Non submission of Udhyam Registration certificate - for MSME / MSE segment only	SME Loan	upto 500 + GST per month for delay over 30 days from loan date
36	Pre-Closure Charges	All products	upto 5% of the total outstanding of the loan + GST
37	Insurance Inspection Charges, if any	Auto Loan, SWC Loan, SME Loan, Four Wheeler Loan	Rs. 100-Rs. 1000 + GST per instance
38	Reprocessing Charges (Change in Vehicles)	SWC Loan	Processing Fees and applicable charges as for SWC

LENDING RATE

S. No.	Type of Loan	IRR Range
1	Auto Loan	upto 35%
2	SWC Loan	upto 36%
3	SME Loan	upto 28%
4	Personal Loan	upto 28%
5	Personal Loan (Small Ticket)*	upto 40%
6	Four Wheeler	upto 27%

****Unless otherwise specified, all charges applicable to a Personal Loan shall apply mutatis mutandis to this arrangement.***

--	--	--	--

***BROKEN PERIOD INTEREST / MORATORIUM INTEREST**

Basis	As per calculation: $\text{Loan Amount} \times \text{IRR} \times \text{gap days}$. Gap days are days in excess of 30 days between disbursement and first EMI date.		
<i>#Where the borrower fails to maintain valid insurance coverage over the hypothecated asset, the Company may, solely to protect its security interest therein, pay the applicable insurance premium (including related taxes and charges) on the borrower's behalf and recover the amount so paid from the borrower/loan account. The Company does not act as an insurance agent, intermediary, or corporate agent in this regard, and does not solicit or procure any insurance business. The Company shall not retain any commission, brokerage, or remuneration in relation to such insurance.</i> <i>Where insurance premium is financed as part of the loan, the same shall, at the borrower's instruction, be deducted from the sanctioned loan amount and disbursed directly to the insurance company selected by the borrower. The Company does not select or recommend the insurer, does not act as an insurance intermediary in this regard, and retains no commission, brokerage, or remuneration on such disbursement.</i>			

श्री राम फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
शुल्क एवं ब्याज अनुसूची (वित्त वर्ष 2026-27)

क्र. सं.	आय / शुल्क शीर्ष	उत्पाद	अंतिम राशि / आधार
1	प्रोसेसिंग शुल्क*	एसएमई ऋण	यदि ऋण राशि ₹3 लाख से कम है – ऋण राशि का अधिकतम 5.00% (जीएसटी अतिरिक्त) यदि ऋण राशि ₹3 लाख से अधिक है – ऋण राशि का अधिकतम 4.00% (जीएसटी अतिरिक्त) उपरोक्त प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (ब्रेक-अप): ₹3 लाख तक की ऋण राशि: प्रोसेस चार्ज – अधिकतम 1.50%; निरीक्षण एवं सत्यापन शुल्क – अधिकतम 1.75%; सर्च एवं वैल्यूएशन शुल्क – अधिकतम 1.75% (जीएसटी अतिरिक्त) ₹3 लाख से अधिक की ऋण राशि: प्रोसेस चार्ज – अधिकतम 1.50%; निरीक्षण एवं सत्यापन शुल्क – अधिकतम 1.25%; सर्च एवं वैल्यूएशन शुल्क – अधिकतम 1.25% (जीएसटी अतिरिक्त)
		पर्सनल लोन	ऋण राशि का अधिकतम 3.50% (जीएसटी अतिरिक्त) उपरोक्त प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (ब्रेक-अप): प्रोसेस चार्ज – अधिकतम 2.00% + जीएसटी; होम इंस्पेक्शन एवं वेरिफिकेशन शुल्क – अधिकतम 1.50% + जीएसटी
		फोर व्हीलर	ऋण राशि का अधिकतम 4.00% (जीएसटी अतिरिक्त)
2	ब्रोकर पीरियड ब्याज / मोरेटोरियम ब्याज	सभी उत्पाद	गणना अनुसार*
3	हाइपोथिकेशन शुल्क	एसडब्ल्यूसी	₹1500-₹3500
		फोर व्हीलर	वास्तविक अनुसार
4	आरटीओ व्यय	ऑटो लोन	अधिकतम ₹7000
		एसडब्ल्यूसी लोन	ऋण राशि का 3.5%
5	वैल्यूएशन शुल्क	फोर व्हीलर	वास्तविक अनुसार
6	मैडेट शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	अधिकतम ₹750 + जीएसटी + बैंक शुल्क वास्तविक अनुसार।
7	क्रेडिट सत्यापन शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹100 प्रति अवसर + जीएसटी
8	सीआईबीआईएल / सीआईआर शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹50 – ₹200 + जीएसटी
9	रिस्क रिव्यू शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹1,000 प्रति अवसर + जीएसटी

10	सीईआरएसएआई पंजीकरण शुल्क	एसएमई	वास्तविक अनुसार
11	भुगतान में देरी पर अतिदेय शुल्क	एसएमई ऋण, पर्सनल लोन	पेनल चार्जस: ईएमआई/बकाया राशि के भुगतान में देरी होने पर बकाया राशि पर अधिकतम 4% प्रति माह (इसमें संविदाकृत ब्याज दर (आईआरआर) पर बकाया राशि पर उपचित ब्याज राशि शामिल है)
		एसडब्ल्यूसी लोन, ऑटो लोन, फोर व्हीलर लोन	पेनल चार्जस: ईएमआई/बकाया राशि के भुगतान में देरी होने पर बकाया राशि पर अधिकतम 6% प्रति माह (इसमें संविदाकृत ब्याज दर (आईआरआर) पर बकाया राशि पर उपचित ब्याज राशि शामिल है)
12	स्टाम्पिंग एवं निरीक्षण व्यय	ऑटो लोन	अधिकतम ₹1200 (डिस्बर्समेंट से कटौती) (केवल निर्दिष्ट डीलरों के सभी ऋणों के लिए)
		एसडब्ल्यूसी लोन	₹600 निश्चित
		एसएमई ऋण, पर्सनल लोन	ऋण राशि का 3% – 4%
		फोर व्हीलर	ऋण राशि का अधिकतम 4%
13	बाउंस शुल्क (चेक एवं एनएसीएच)	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन	अधिकतम ₹400 + जीएसटी प्रति बाउंस।
		फोर व्हीलर, एसएमई लोन, पर्सनल लोन	अधिकतम ₹500 + जीएसटी प्रति बाउंस।
14	रिकवरी शुल्क	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, एसएमई लोन, पर्सनल लोन	ग्राहक परिसर में प्रत्येक विजिट के लिए अधिकतम ₹1000 + जीएसटी, चाहे किसी किस्त/ईएमआई पुनर्भुगतान राशि का भुगतान किया गया हो या नहीं।
		फोर व्हीलर	ग्राहक परिसर में प्रत्येक विजिट के लिए अधिकतम ₹700 + जीएसटी, चाहे किसी किस्त/ईएमआई पुनर्भुगतान राशि का भुगतान किया गया हो या नहीं।
15	सीज़ शुल्क	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, एसएमई लोन	अधिकतम ₹2000 + जीएसटी प्रति अवसर
		फोर व्हीलर	अधिकतम ₹7000 + जीएसटी प्रति अवसर
16	टेलीफोन शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹50 + जीएसटी प्रति माह
17	लीगल नोटिस शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	अधिकतम ₹2000 + जीएसटी प्रति नोटिस
18	डाक शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	वास्तविक अनुसार
19	खाता विवरण जारी करने का शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹300 प्रति अवसर + जीएसटी
20	एनओसी अनुरोध (सक्रिय ऋण)	सभी ऋण उत्पाद	₹300 प्रति अनुरोध + जीएसटी उपयोग परिवर्तन हेतु एनओसी: ₹2,000 प्रति अनुरोध + जीएसटी।
21	बंद ऋण के लिए एनओसी जारी करने का शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	प्रथम प्रति: नि:शुल्क; द्वितीय प्रति: ₹300 प्रति ऋण / प्रति अनुरोध + जीएसटी
22	पुनर्गठन शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	अधिकतम ₹2000 + जीएसटी प्रति अवसर
23	स्वेप शुल्क (पुनर्भुगतान पद्धति/बैंक खाता परिवर्तन)	सभी ऋण उत्पाद	₹300 प्रति अवसर + जीएसटी
24	विविध शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	वास्तविक अनुसार

25	नकद हैंडलिंग शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	नकद राशि का अधिकतम 1%, न्यूनतम ₹100 + जीएसटी के अधीन, प्रति अवसर।
26	नकद संग्रहण शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹100 प्रति अवसर तक (एनएसीएच ग्राहकों के लिए)
27	ऋण रद्दीकरण शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	07 दिनों तक – संपूर्ण स्वीकृत राशि वापस किए जाने पर शून्य शुल्क 07 दिनों के बाद – ब्याज + प्रीपेमेंट शुल्क + प्रोसेसिंग शुल्क
28	वाहन रखरखाव शुल्क	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, फोर व्हीलर	सीज़ किए गए वाहनों के लिए वास्तविक अनुसार
29	लोन टेकओवर शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹500 + जीएसटी
30	ड्यू डेट परिवर्तन शुल्क	सभी ऋण उत्पाद	₹500 – ₹1,000 + जीएसटी प्रति अवसर
31	यार्ड रेंटल शुल्क	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, फोर व्हीलर लोन	वास्तविक अनुसार
32	इनवॉइस अप्रस्तुतीकरण शुल्क	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, फोर व्हीलर लोन	₹300/माह + जीएसटी
33	आरसी हाइपोथिकेशन लंबित शुल्क	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, फोर व्हीलर लोन	₹300/माह + जीएसटी
34	प्रॉपर्टी कोलैटरल दस्तावेज़ विलंब शुल्क	एसएमई ऋण	₹5,000 + जीएसटी
35	उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र अप्रस्तुतीकरण – केवल एमएसएमई/एमएसई खंड के लिए	एसएमई ऋण	ऋण तिथि से 30 दिनों से अधिक विलंब होने पर अधिकतम ₹500 + जीएसटी प्रति माह
36	प्री-क्लोज़र शुल्क	सभी उत्पाद	ऋण के कुल बकाया (total outstanding) का अधिकतम 5% + जीएसटी
37	बीमा निरीक्षण शुल्क, यदि कोई हो	ऑटो लोन, एसडब्ल्यूसी लोन, एसएमई लोन, फोर व्हीलर लोन	₹100 – ₹1000 + जीएसटी प्रति अवसर
38	रीप्रोसेसिंग शुल्क (वाहन परिवर्तन)	एसडब्ल्यूसी लोन	एसडब्ल्यूसी हेतु लागू प्रोसेसिंग शुल्क एवं अन्य शुल्क
ऋण ब्याज दर			
क्र. सं.	ऋण का प्रकार	आईआरआर सीमा	
1	ऑटो लोन	अधिकतम 35%	
2	एसडब्ल्यूसी लोन	अधिकतम 36%	
3	एसएमई लोन	अधिकतम 28%	
4	पर्सनल लोन	अधिकतम 28%	
5	पर्सनल लोन (स्मॉल टिकट)*	अधिकतम 40%	
6	फोर व्हीलर	अधिकतम 27%	
* जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, पर्सनल लोन पर लागू सभी शुल्क इस व्यवस्था पर यथावश्यक परिवर्तन सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।			

***ब्रोकन पॉरियड ब्याज / मोरेटोरियम ब्याज**

आधार	गणना अनुसार: ऋण राशि × आईआरआर × गेप दिवस। गेप दिवस से आशय संवितरण तिथि और प्रथम ईएमआई तिथि के बीच 30 दिनों से अधिक के दिनों को संख्या से		

जहाँ उधारकर्ता हाइपोथिकेटेड परिसंपत्ति पर वैध बीमा कवरेज बनाए रखने में विफल रहता है, वहाँ कंपनी, केवल अपने प्रतिभूति हित (security interest) की सुरक्षा हेतु उधारकर्ता की ओर से लागू बीमा प्रीमियम (संबंधित कर एवं शुल्कों सहित) का भुगतान कर सकती है और इस प्रकार भुगतान की गई राशि उधारकर्ता/ऋण खाते से वसूल कर सकती है। कंपनी इस संबंध में किसी बीमा अभिकर्ता (insurance agent), मध्यस्थ (intermediary), अथवा कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य नहीं करती है, और न ही किसी बीमा व्यवसाय का सोलिसिटेशन अथवा प्रोक्योरमेंट करती है। ऐसे बीमा के संबंध में कंपनी कोई कमीशन, दलाली अथवा पारिश्रमिक प्रतिधारित नहीं करेगी।

^ जहाँ बीमा प्रीमियम ऋण में सम्मिलित कर वित्तपोषित (finance) किया जाता है, वहाँ उक्त प्रीमियम राशि, उधारकर्ता के निर्देश पर, स्वीकृत ऋण राशि में से काटी जाएगी तथा उधारकर्ता द्वारा चयनित बीमा कंपनी को सीधे संवितरित (disburse) की जाएगी। कंपनी इस संबंध में बीमाकर्ता का चयन अथवा अनुशंसा नहीं करती है, किसी बीमा मध्यस्थ (intermediary) के रूप में कार्य नहीं करती है, और ऐसे संवितरण पर कोई कमीशन, दलाली अथवा पारिश्रमिक प्रतिधारित नहीं करती है।